



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 905) पटना, सोमवार, 16 दिसम्बर 2013

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

अधिसूचनाएं
3 दिसम्बर 2013

सं0 गव्य (यो0-2)01/2003/1509—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल एतद्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती/प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

बिहार गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली, 2013

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ** ।— (1) यह नियमावली “ बिहार गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली, 2013” कहलायेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएँ** ।— इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(ख) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
(ग) “सदस्य या संवर्ग के सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार गव्य संवर्ग में नियुक्त कर्मी;
(घ) “कोटि” से अभिप्रेत है बिहार गव्य संवर्ग की विभिन्न कोटि ;
(ङ) “संवर्ग” नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक (गव्य) ;
(च) “विभाग” से अभिप्रेत है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग;
(छ) “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
- संवर्ग का गठन** ।— (1) यह संवर्ग राज्य संवर्ग समझा जायेगा ।

- (2) यह संवर्ग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन होगा।
 (3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर पदनाम एवं पदस्तर (वेतनमान) में परिवर्तन कर सकेगी।
 (4) इस संवर्ग में प्रस्तावित पदों का विवरण इस नियमावली की अनुसूची में दिया गया है।
 (5) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से अनुसूची के पदों पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

4. पद स्थिति I— यह संवर्ग बिहार गव्य संवर्ग वर्ग-III (समूह -ख), बिहार गव्य संवर्ग वर्ग-II (समूह -ख) एवं बिहार गव्य संवर्ग वर्ग-I (समूह-क) में विभक्त रहेगा। वर्ग-III में मूल संवर्ग (Basic Cadre) के पद एवं वर्ग-II, वर्ग-I में प्रोन्नति के सभी पद सम्मिलित रहेंगे एवं संवर्गीय रहेंगे। संवर्ग के विभिन्न पद, उनके वेतनमान एवं नियुक्ति प्राधिकार निम्नवत् होंगे –

क्र०	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी/पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकार
1	गव्य तकनीकी पदाधिकारी/गव्य क्षेत्र पदाधिकारी (बेसिक कैडर)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹5,000-8,000 पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹9,300-34,800 ग्रेड पे ₹4200/-	वर्ग-3 समूह-ख 82 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम कक्ष पद (वर्ग -2)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6,500-10,500 पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹9,300-34,800/ ग्रेड पे ₹4,800/-	वर्ग-2 समूह-ख 22 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
3	उप निदेशक(गव्य) / क्षेत्रीय उप निदेशक (गव्य) / गव्य अर्थशास्त्री (वर्ग -1)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹8,000-13,500/ पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹5,400/-	वर्ग-1 समूह-ख 5 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
4	संयुक्त निदेशक(गव्य)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक(गव्य) वर्ग -1 (विशिष्ट कोटि)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹10,000-15,200/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹15,600-39,100/ ग्रेड पे ₹6,600/-	वर्ग-1 समूह-क 3 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
5	निदेशक (गव्य) वर्ग -1 (अधिकाल वेतनमान)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹14,300-18,300/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बेन्ड ₹37,400-67,000/- ग्रेड पे ₹8,700/-	वर्ग-1 समूह-क 1 पद	बिहार-राज्यपाल सचिव/प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अध्याय-2 सीधी भर्ती

- 5. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, अर्हता एवं स्रोत I—** (1) अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
 (2) बिहार गव्य संवर्ग (बेसिक कैडर) में सीधी भर्ती हेतु अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी० टेक० (डेयरी टेक्नोलॉजी)/बी० एस सी० (डेयरी टेक्नोलॉजी)/समकक्ष की डिग्री होगी।
 (3) इस संवर्ग की मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

6. **रिक्तियों का विनिश्चय एवं आयोग को अधियाचना** ।— प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील को उस वर्ष के इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या विनिश्चित करेगा तथा इस प्रकार विनिश्चित रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेज देगा। यदि किसी वर्ष में अधियाचना भेजने या सीधी नियुक्ति द्वारा, पद भरने की कार्यवाई नहीं की जाती है, तब भी सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की गणना वर्षवार की जायेगी और उसे अगले वर्ष के लिए, पिछले वर्ष की रिक्ति मानते हुए, अग्रणीत किया जायेगा।
7. **आरक्षण** ।— राज्य सरकार द्वारा राज्य संवर्गों के लिए समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण का प्रावधान इस संवर्ग में लागू होगा।

अध्याय —3

वेतन एवं दक्षतावरोध

8. **वेतन** ।— विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान/ग्रेड—पे इस नियमावली की अनुसूची के अनुसार होगा तथा उनके तत्समान प्रतिस्थापन वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायेगे।
9. **परिवीक्षा अवधि एवं संपुष्टि** ।— (1) किसी मौलिक पद के विरुद्ध परिवीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षण अवधि में बिपार्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के अनुसार वे प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। परिवीक्षण अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ संतोषजनक ढंग से परिवीक्षण अवधि पूरी करने एवं अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत ही पदाधिकारी को नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संतुष्ट किया जा सकेगा।
(2) सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही, अनुमान्य होगी। परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस संवर्ग के सदस्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

अध्याय —4

संवर्ग प्रबंधन

10. **तकनीकी प्रशिक्षण** ।— इस संवर्ग के सदस्यों को, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, राज्य में अथवा राज्य से बाहर, राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।
11. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम** ।— (1) विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम अनुसूची के क्रमांक-11 में उल्लिखित किया गया है।
(2) विभागीय परीक्षा रूल्स फॉर डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन ऑफ गजटेड ऑफिसर्स 1961 के अनुसार केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जायेगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति की स्वीकृति दी जायेगी।
परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस संवर्ग के सदस्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत विभाग द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) को विभागीय परीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया जायेगा।
12. **प्रोन्नति** ।— (1) अनुसूची के स्तम्भ 12 में उल्लेखित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ 11 में उल्लेखित पदधारकों को प्रोन्नति दी जायेगी।
(2) कालावधि (न्यूनतम अर्हक सेवा) वहीं होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित किया जायेगा।
13. **अवशिष्ट मामले** ।— इस संवर्ग के लिए अन्य शर्तें यथा — अनुशासनात्मक कार्यवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है या जो इस संवर्ग के लिए पृथकरूप अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए प्रासंगिक नियमावली में किये गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होंगे।
14. **कठिनाईयों का निराकरण** ।— समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से वैसी कठिनाईयों का निराकरण किया जा सकेगा जिसके लिए युक्तियुक्त कारण हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के सचिव।

अनुसूची

2	1	क्र० सं०
जिला गव्य विकास पदाधिकारी / समकक्ष पद (वर्ग -2)	गव्य तकनीकी पदाधिकारी / गव्य क्षेत्र पदाधिकारी (लेसिक कैंडर)	सर्वर्ग / पद का नाम
22	82	पदों की संख्या
सर्वर्गीय समूह "ख"	सर्वर्गीय समूह "ख"	वर्गीकरण
अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6,500/-10,500/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड ₹9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹4,800/-	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹5,000-8,000/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड ₹9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹4,200/-	वेतनमान
अप्रवरण पद	अप्रवरण पद	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद
-	न्यूनतम 21-वर्ष एवं अधिकतम वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किया जाय। सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम आयु में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी - आयु की सीमा निर्धारण के लिए कट -ऑफ -डेट 1 अगस्त होगा।	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु
-	माय्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी० टेक० (डियरी टेकनोलॉजी) / बी०एस०सी० (डियरी टेकनोलॉजी) / समकक्ष की डिग्री।	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यताएं
-	-	परिवीक्षा अवधि
प्रोन्नति द्वारा	सीधी नियुक्ति	भर्ती की पद्धति
प्रोन्नति सरकारी नियमों का पालन करते हुए गव्य तकनीकी पदा० / गव्य क्षेत्र पदाधिकारी के सर्वर्गीय पदधारकों से वरीयता सह सुयोग्यता के आधार पर दी जायेगी।	-	प्रोन्नति / स्थानान्तरण द्वारा रिक्त पद भरे जाने की स्थिति में वे ग्रेड-फ़ॉर प्रोन्नति / स्थानान्तरण किये जाना हों
बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति दी जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मनोनित सदस्य - अध्यक्ष 2- विभागीय सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव - सदस्य 3- कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य 4- कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / जन जाति के प्रतिनिधि - सदस्य 5- निदेशक (गव्य) - सदस्य	-	विभागीय प्रोन्नति समिति
प्रश्न ही नहीं उठता है।	प्रश्न ही नहीं उठता है।	परिस्थितियाँ जिनमें बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना हों।

4	3
संयुक्त निदेशक(गव्य)/ क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक(गव्य) वर्ग -1 (विशिष्ट कोटि)	उपनिदेशक (गव्य)/ क्षेत्रीय उपनिदेशक (गव्य)/ गव्य अर्धशास्त्री (वर्ग -1)
3	5
संवर्गीय समूह "क" (राजपत्रित)	संवर्गीय समूह "ख" (राजपत्रित)
अपुनरीक्षित वेतनमान ₹10,000-15,200/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड ₹15,600-39,100/- ग्रेड पे ₹6,600/-	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹8,000-15,200/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड ₹9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹5,400/-
अप्रवरण पद	अप्रवरण पद
-	-
-	-
-	-
प्रौन्नति द्वारा	प्रौन्नति द्वारा
प्रौन्नति सरकारी नियमों का पालन करते हुए उप निदेशक(गव्य)/ क्षेत्रीय उप-निदेशक(गव्य) / गव्य अर्धशास्त्री के संवर्गीय पदधारकों से बरीयता सह सुयोग्यता के आधार पर दी जायेगी।	प्रौन्नति सरकारी नियमों का पालन करते हुए जिला गव्य विकास पदाधिकारियों / समकक्ष पदों के संवर्गीय पदधारकों से बरीयता सह सुयोग्यता के आधार पर दी जायेगी।
विभागीय प्रौन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रौन्नति दी जाएगी। विभागीय प्रौन्नति समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1) कृषि उत्पादन आयुक्त -अध्यक्ष 2) प्रधान सचिव/सहकारिता विभाग - सदस्य 3) प्रधान सचिव/सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग - सदस्य 4) प्रधान सचिव/वन एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य 5) कार्मिक विभाग के एक पदा0 -सदस्य 6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/ जनजाति / के पदा0 -सदस्य	विभागीय प्रौन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रौन्नति दी जाएगी। विभागीय प्रौन्नति समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1) कृषि उत्पादन आयुक्त - अध्यक्ष । 2) प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य 3) प्रधान सचिव/सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग - सदस्य 4) प्रधान सचिव/वन एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य 5) कार्मिक विभाग के एक पदा0 - सदस्य 6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/ जनजाति / के पदा0 - सदस्य
प्रश्न ही नहीं उठता है।	प्रश्न ही नहीं उठता है।

5	निदेशक(गव्य) वर्ग -1 (अधिकाल वेतनमान)	1	संवर्गीय समूह "क" (राजपत्रित)	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹14300-18300/- पुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड ₹37400 - 67000/- ग्रेड पे ₹8700/-	अप्रवरण पद	-	-	-	प्रोन्नति द्वारा	विभागीय संयुक्त निदेशक(गव्य)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक(गव्य) के पदधारकों से परीयता सह सुयोग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति दी जायेगी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मनोनित सदस्य - अध्यक्ष 2- विभागीय सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव - सदस्य 3- कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य 4- कार्मिक विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति / जन जाति के प्रतिनिधि - सदस्य	प्रश्न की नहीं उठता है।
---	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------	---	---	---	------------------	---	-------------------------

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार मल्ल,

सरकार के सचिव।

The 3rd December 2013

No. गव्य (यो0-2)01/2003/1509—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to regulate the recruitment and promotion to the Bihar Dairy Cadre of the Animal & Fisheries Resources Department:-

The Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013

Chapter - Preliminary

- Short title, extent and commencement.**-(1) These Rules may be called The Bihar Dairy Cadre Recruitment Rules, 2013;
 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar;
 (3) It shall come in to force at once.
- Definition.**- In these Rules, unless otherwise requires in the context-
 (a) "State Government" means The State Government of Bihar;
 (b) "Governor" means Governor of Bihar;
 (c) "Member or Member of the cadre" means an employee appointed in the Bihar Dairy Cadre;
 (d) "Category" means different categories of The Bihar Dairy Cadre;
 (e) "Cadre Controlling Authority" means The Director (Dairy);
 (f) "Department" means Animal & Fisheries Resources Department;
 (g) "Commission" means Bihar Public Service Commission/Bihar State Staff Selection Commission, Patna.
- Constitution of Cadre.** - (1) This cadre shall be deemed to be a state cadre.
 (2) This cadre shall be under administrative control of The Animal & Fisheries Resources Department.
 (3) The State Government may change the designation and level of post (Pay Scale).
 (4) The details of the Proposed Posts in this cadre are given in the schedule to these Rules.

- (5) After commencement of these Rules the officers/employees appointed or promoted to the posts of mentioned in the schedule to these Rules shall be treated as a member of this cadre from date of the commencement of these Rules.
4. **Status of the Posts.-** This cadre shall be divided in Bihar Dairy Cadre Class III (Group-B), Bihar Dairy Cadre Class-II (Group-B) and Bihar Dairy Cadre Class-I (Group-A). Posts of Basic Cadre, and all posts of promotion shall included in Class-III. Class-II & Class-I and their Pay scale and Appointing Authority shall be the following:-

S. No.	Designation	Pay Scale	Grade and number of Posts	Appointing Authority
1	Dairy Technical Officer/Dairy Field Officer(Basic Cadre)	Unrevised Pay Scale - ₹5,000-8,000/- Revised Pay Scale - Pay Band ₹ 9,300-34,800/- Grade Pay- ₹ 4,200/-	Class-III Group-B 82 Posts	Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department.
2	District Dairy Development Officer/Equivalent Post (Class-II)	Unrevised Pay Scale - ₹ 6,500-10,500/- Revised Pay Scale - Pay Band ₹ 9,300-34,800/- Grade Pay--₹ 4,800/-	Class-II Group-B 22 Posts	Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department.
3	Deputy Director (Dairy)/Regional Deputy Director (Dairy)/ Dairy Economist Class-I	Unrevised Pay Scale - ₹ 8,000-13,500/- Revised Pay Scale - Pay Band ₹ 9,300-34,800/- Grade Pay--₹ 5,400/-	Class-I Group-A 5 Posts	Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department.
4	Joint Director (Dairy) Regional/ Joint Director (Dairy) (Particular Category)	Unrevised Pay Scale - ₹ 10,000-15,200/- Revised Pay Scale - Pay Band ₹ 15,600-39,100/- Grade Pay- ₹ 6,600/-	Class-I Group-A 3 Posts	Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department.
5	Director (Dairy) Class-I (Supertime Scale)	Unrevised Pay Scale - ₹ 14,300-18,300/- Revised Pay Scale - Pay Band ₹ 37,400-67,000/- Grade Pay--₹ 8,700/-	Class-I Group-A One Posts	Governor of Bihar Secretary/Principal Secretary, Animal & Fisheries Resources Department.

Chapter-2

Direct Recruitment

5. **Age limit, qualification and sources for Direct Recruitment.-**(1) Minimum age of The Candidates will be 21 years and maximum will be the same which shall be

- decided, from time to time, by General Administrative Department of the State Government.
- (2) Qualification for the direct recruitment in Bihar Dairy cadre (Basic cadre) will be B.Tech. (Dairy Technology)/B.Sc. (Dairy Technology)/Equivalent degree from any recognized University/Institute.
 - (3) All Posts of Basic category of this cadre will be filled by Direct Recruitment
6. **Determination of Vacancies and Requisition to The Commission.-** Every year on 1st April, the Administrative Department will determine the number of Vacancies to be filled up by direct recruitment in this cadre in that year and department will send the requisitions of vacancies to the commission up to 30th April. If in any year, action of sending requisition and filling Posts by direct recruitment is not taken, calculation of Posts to be filled up by direct recruitment will be made year wise and it will be carried forward for coming year treating the vacancies of last year.
7. **Reservation.-** Provisions of Reservation shall be applicable to this cadre according to the prescribed Rules and Process for the state cadre prescribed, from time to time, by the State Government.

Chapter-3

Pay and Efficiency bar

8. **Pay.-** Pay scale/Grad pay of different Posts of different Categories will be according to the Schedule of These Rules and Substituted pay scale of equal there to will be declared, from time to time, by the State Government.
9. **Probation Period and Confirmation.-** Each officer appointed on probation against any basic post shall be placed on probation for two years from the date of appointment. According to the courses prepared by BIPARD, they will get training also. The officers, completing the required training in probation period along with completing the probation period satisfactorily and after passing the required Departmental Examination, may be confirmed by the Appointing Authority.
- (2) Confirmation, annual increment and promotion will be admissible only after passing the Departmental Examination, Provided that This Provision will not apply to those members of the cadre appointed prior to the commencement of these Rules.

Chapter-4

Cadre Management

10. **Technical Training.-** Members of this cadre will be sending within the state or out of the state for the period, prescribed by the state government for technical training.
11. **Departmental Examination and courses study. -** (1) Departmental Examination and Courses of study are mentioned in serial Number 11 of schedule.
- (2) Departmental Examination will be held by Central Examination Committee according to the Rules for the Departmental Examination of Gazetted Officers, 1961. Confirmation, annual increment and promotion will be allowed only after passing the Departmental Examination Provided that this provision will not apply to the members of this cadre appointed prior to the commencement of these Rules.
- (3) After the commencement of these Rules, Courses of study relating to the Departmental examination will be provided to the Central Examination Committee (Revenue Board).
12. **Promotion. -** (1) On the recommendation of Departmental Promotion Committee mentioned in column 11 of schedule, promotion will be given to Post holders mentioned in column 10 of the said schedule.

- (2) Kalawadhi (minimum qualifying service) will be same which may be decided by The General Administrative Department from time to time.
13. **Residual Cases.-** Other conditions for this cadre, namely Disciplinary action, Leave, Admissible Pensioner Benefits etc which are not covered by these Rules or which are not notified for this cadre separately, will be controlled by the Provisions concerned made in the relevant Rules for the officers of the State Government.
14. **Removal of difficulties.-** Such Difficulties may be removed by notification, made by the State Government for which there may be reasonable reason.

By order of the Governor of Bihar,
SANTOSH KUMAR MALL,
Secretary to Government.

Schedule

S.N.	Cadre/ Name of Post	No of Post	Classification	Pay scale	Prawaran Post or non prawaran	Minimum and Maximum age for Direct Regriment	Minimum Qualifications for Direct Recruitment	Probation Period	Method of Recruitment	In case of filling the vacant post by promotion/ Transfer. The grads-source from which promotion/ transfer has to be made	Departmental Promotion committee	Circumstances in which BPSC has to be consulted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dairy Technical officer/ Dairy Field officer (Basic cadre)	82	Cadre group B	Unrevised pay scale Rs. 5,000-8,000/- Revised pay scale Pay Band Rs. 9,300-34,800/- Grade Pay-Rs. 4,200/-	Non Prawaran Post	Minimum 21 years and Maximum will be such as may be decided by the state government from time to time. Relaxation in Maximum age for government employees may be given. Note - 1st August will be cut off date for determination of age limit	Degree of B. Tech (Dairy Technology)/ B.Sc (Dairy Technology)/ Equivalent degree from Recognised University/ Institution		Direct Recruitment	-----	-----	Question does not arise

3	2
Deputy Director (Dairy)/ Regional Deputy Director (Dairy)/ Dairy Economist (Class-I)	District Dairy Development Officer
5	22
Cadre group A Gazetted	Cadre group B Gazetted
Unrevised pay scale Rs. 8,000-13,500/-Revised pay scale Pay Band Rs. 9,300-34,800/- Grade Pay- Rs. 5,400/-	Unrevised pay scale Rs. 6,500-10,500/- Revised pay scale Pay Band Rs. 9,300-34,800/- Grade Pay- Rs. 4,800/-
Non Prawaran Post	Non Prawaran Post

By Promotion	By Promotion
Promotion will be given on the basis of seniority-cum-suitability by District Dairy Development officers cadre Post holders of equivalent Posts applying government Rules for Promotion.	Promotion will be given on the basis of seniority-cum- Suitability of cadre post holders of Dairy Technical officers/ Dairy Field officer complying government Rules in Promotion
Promotion will be given on the recommendation of Departmental Promotion Committee. Departmental Promotion Committee shall consist of the following Member:- 1.Agriculture Production Commissioner - Chairman. 2.Principal Secretary Cooperative Department - Member 3.Principal Secretary Animal & Fisheries Resources Department - Member 4.Principal Secretary, Environment & forest Department -Member 5.An officer of General Administration Deptt.- Member 6.An officer of SC/ST nominated by General Administrative Department - Member	Promotion will be given in view of recommendation of BPSC which consist of the following:- 1.Chairman or nominated member of BPSC- Chairman 2. Departmental Secretary or Additional Secretary - Member 3.Representative of General Administrative Department - Member 4.An officer of SC/ST nominated by General Administrative Department - Mem-ber 5.Director (Dairy)- Member
Question does not arise	Question does not arise

5	4
Director (Dairy) class-I Supertime scale	Joint Director (Dairy)/ Regional Joint Director (Dairy) class-I (Particular category)
1	3
Cadre group A Gazetted	Cadre group A Gazetted
Unrevised pay scale Rs. 14300-18300/- Revised pay scale Pay Band Rs. 37400-67000/- Grade Pay- Rs. Rs. 8700/-	Unrevised pay scale Rs. 10000-15200/- Revised pay scale Pay Band Rs. 15600-39100/- Grade Pay- Rs. 6600/-
-----	Non Prawaran Post
By Promotion	By Promotion
Promotion will be given on the basis of seniority cum suitability from the Post holders of Departmental Joint Director (Dairy)/ Regional Joint Director (Dairy)	Promotion will be given on the basis of seniority cum suitability by the cadre post holders of Deputy director (Dairy) Regional Deputy Director(Dairy) Dairy Economist applying Govt. Rule for Promotion
Promotion will be given in veiw of recommendation of BPSC which consist of the following:- 1. Chairman or nominated member of BPSC - Chairman 2. Departmental Secretary or Special secretary or Additional Secretary - Member 3. A representative of General Administration Department - Member 4. A representative of SC/ST nominated by General Administration Department - Member	Promotion will be given on the recommendation of Departmental Promotion Committee. Departmental Promotion Committee shall consist of the following Member:- 1.Agriculture Production Commissioner - Chairman. 2.Principal Secretary Cooperative Department - Member 3.Principal Secretary/Secretary Animal & Fisheries Resources Department - Member 4.Principal Secretary, Environment & forest Department - Member 5.An officer of General Administration Deptt. - Member 6.An officer of SC/ST nominated by General Administrative Department - Member
Question does not arise	Question does not arise

By order of the Governor of Bihar,
SANTOSH KUMAR MALL,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 905-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>